Listing Compliance Department

Phirozee Jeejeebhov Towers,

BSE Limited.

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

January 13, 2021

Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

Fax: 022-26598235/36

NSE Symbol: VIKASMCORP Scrip Code: 542655

Sub: Newspaper publication of Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2020, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated January 13, 2021 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

above information is also available on the Company's website at www.vikasmulticorp.com

You are requested to take the information on record.

Yours Faithfully, for Vikas Multicorp Limited

Ujjwal Verma Company Secretary & Compliance Officer



January 12, 2021

CEMENT

GULSHAN POLYOLS LIMITED Regd. Off.: 9th K.M. Jansath Road, Muzaffamagar - 251 001 (UP) Corporate Off.: G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092 Tel: 011-49999200, Fax: 011-49999202 CIN: L24231UP2000PLC034918

Website: www.gulshanindia.com, E-mail: cs@gulshanindia.com Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, January 20, 2021 at G - 81 Preet Vihar, Delhi - 110092, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results for the guarter and nine months ended on December 31, 2020 including other matters of the Company. The information contained in this Notice is also available on Company's website www.qulshanindia.com and on the Stock Exchanges' website: www.nseindia.com and www.bseindia.com

For Gulshan Polyols Limited (Vijay Garg)

Company Secretary

Shree Digvijay Cement Company Limited CIN: L26940GJ1944PLC000749 Digvijaygram, Jamnagar – 361 140 (Gujarat) Email: investors.sdccl@digvijaycement.com Website: www.digvijaycement.com

Phone 0288-2344272-75, Fax No. 0288-2344092 NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 27th January, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2020.

This Notice is also available at Investors Section of the Company's website www.digvijaycement.com and on the Stock Exchanges website a www.bseindia.com and www.nseindia.com, where the shares of the Company are listed.

For Shree Digvijay Cement Co. Ltd.

Place : Digvijaygram

Date: 31st December, 2020

Suresh Meher VP (Legal) & Company Secretary

ASSAM ELECTRICITY GRID CORPORATION LIMITED

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN) Assignment Title: Procurement of Supply, Configuration, Integration

Installation, Implementation & Support of ERP Software (hereafter ERP System) for AEGCL, Assam, India. RFB No. AEGCL/AIIB/ERP/PACKAGE-N1/38 Dated: 13/01/2021

The Government of India has applied for financing from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) towards the cost of Assam Intra-State Transmission System Enhancement Project ("the Project") and intende to apply parts of the proceeds for this service.

The undersigned, now invites tenders from the qualified vendors for supply of Installation of ERP Application System. The tender document is available from 13/01/2021 to 01/03/2021 from the website www.assamtenders. gov.in and www.aegcl.co.in

Sd/- Project Director (AIIB), AEGCL

BIGBLOC CONSTRUCTION LIMITED

CIN: L45200GJ2015PLC083577 Regd. office: 6th Floor, A-601/B, International Trade Centre, Majura Gate. Ring Road, Surat 395 002. (Gujarat) INDIA Phone: +91-261-2463261, 2463262, 2463263, Fax: +91-261-2463264 Email: bigblockconstructionttd@gmail.com Website: www.bigblocconstruction.com / www.nxtbloc.ir

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 19th January, 2021 at 11:30 A.M. at Registered Office of the company to consider and approve Un-Audited Financial Results of the Company for the third quarter ended on 31st December, 2020. This information is also available on the Company's website www.bigblocconstruction.com / www.nxtbloc.in and or the website of the Stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com For BIGBLOC CONSTRUCTION LIMITED

(Shyam Kapadia)

KOKUYD

KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434

Regd. Office: 48/2, Hilton House

Central Road, MIDC, Andheri (E),

Mumbai - 400 093

Tel: 91-022-66557000

Fax: 91-022-28366579

E-mail: investorrelations@

kokuyocamlin.com

Website: www.kokuyocamlin.com

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47(1) of

the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations,

2015, Notice is hereby given that a meeting

of the Board of Directors of the Company,

will be held on Friday, the 29th January,

2021 to consider and approve inter-alia.

the Unaudited Financial Results for the

Third quarter and Nine months ended

Further, in line with Regulation 47(2) of the

aforesaid Regulations, this Notice is also

. The Company viz. www.kokuyocamlin.com

Limited (www.nseindia.com)

. BSE Limited (www.bseindia.com) and

National Stock Exchange of India

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED

VICE PRESIDENT (CORPORATE)

& COMPANY SECRETARY

RAVINDRA DAMLE

31st December, 2020.

Place: Mumbai

Date: 13th January, 2021

available on the websites of

Company Secretary & Compliance officer Date: 12/01/2021 Camlin &

MUTUAL

Place: SURAT

Nippon india Mutual Fund Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited

(formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited) (CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marq, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 22 6808 7000 • Fax No. +91 22 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 100

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 5, 2020 on "Product Labeling in Mutual Fund schemes – Risk-o-meter", the revised Risk-o-meter of Nippon India Passive Flexicap FoF ("Scheme") is as follows:

Scheme Name	Revised Risk-o-meter
Nippon India Passive Flexicap FoF	Riskometer Investors understand that their principal will be at Very High risk

This addendum forms an integral part of Scheme Information Document and Key Information Memorandum of the Scheme of Nippon India Mutual Fund and all the other terms and conditions of the aforesaid document(s) read with the addenda issued from time to time will remain unchanged.

For NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

January 12, 2021

Mumbai

Authorised Signatory Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

> Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

VIKAS MULTICORP LIMITED CIN: L25111DL1995PLC073719 Regd. Office: G-1 34/1, EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI-110026

Ph.: 011-40450110 | E-mail: cs@vikasmulticorp.com | URL: www.vikasmulticorp.com

			8			Rs. In Lakhs	
Particulars	Three Months Ended			Nine Mon	ths Ended	Year Ended	
10.0.10002 T-0.00 ARABE	31.12.2020 (Un-audited)	30.09.2020 (Un-audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2020 (Un-audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	
Total income from operations (net)	942.95	3,185.73	4,713.60	4,493.90	12,193.99	15,538.00	
Net profit before Exceptional items and tax	10.27	41.79	156.63	62.61	383.90	353.93	
Net Profit / (Loss) before tax	10.27	41.79	156.63	62.61	248.59	250.62	
Net profit after tax	6.62	31.27	113.43	45.79	181.82	139.72	
Total Comprehensive Income for the period	(1,418.65)	(441.15)	1,913.48	(1,853.01)	(106.89)	(3,672.60)	
Equity Share Capital (Rs.)	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	(0.21) (0.21)	(0.07) (0.07)	0.29 0.29	(0.28) (0.28)	(0.02) (0.02)	(0.55) (0.55)	

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarterly ended

Financial Result are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com).

The above results were reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their meeting held on 12.01.2021. The Audit has been conducted by statutory auditors of the company and they have issued Limited Review Report.

By order of the Board of Directors For Vikas Multicorp Limited

Date: January 12, 2021 Place: New Delhi

Place: Mumbai

financialexp.epap.in

Vivek Garg Managing Director



PGIM India Asset Management Private Limited

(Erstwhile DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited) 2nd Floor, Nirlon House, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai - 400 030.

Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446 Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE [No. 39 of 2020-21]

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited (erstwhile DHFL Pramerica Trustees Private Limited), Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of dividend under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with January 18, 2021 as the record date:-

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of dividend per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* ₹	Face Value (₹ per unit)	NAV of Dividend Option as on January 11, 2021 (₹ per unit)#
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly Dividend Option	0.042	10	10.5578
DOIM India Unbeld Fault. Fund	Regular Plan - Monthly Dividend Option	0.124	10	21.89
PGIM India Hybrid Equity Fund	Direct Plan - Monthly Dividend Option	0.144	10	22.93
PGIM India Equity Saving Fund	Direct Plan - Monthly Dividend Option	0.07	10	12.7133

#Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option of the above-mentioned Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Dividend will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the dividend.

The dividend will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

For PGIM India Asset Management Private Limited

Date : January 12, 2021 **Authorized Signatory**

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



Biden inauguration: reporters on Monday.

He said the number could rise to 15,000 if requested by local authorities. At least one lawmaker asked the Pentagon to do more.

FBI issues armed

protest warning

Senator Chris Murphy, who said he was sending a letter to the acting secretary of defenses on Monday, said it was unclear if the National Guard would be sufficient to protect the nation's capital and that activeduty troops may be needed also.

"I'm not afraid of taking the oath outside," Biden told reporters in Newark, Delaware, referring to the traditional setting for the swearing-in ceremony on the Capitol grounds. But he said it was critically important that people "who engaged in sedition and threatened people's lives, defaced public property, caused great damage"be held accountable.

Biden's inaugural committee said on Monday the theme of the January 20 ceremony would be "America United".

Trump, who has sought unsuccessfully to overturn the November 3 election results with false claims of widespread fraud, said lastweek he would not attend the ceremony, a decision the president-elect supported.

The Park Service said it would suspend tours of the Washington Monument, an obelisk honouring the country's first president, due to safety concerns from threats to disrupt the inauguration.

Washington mayor Muriel Bowser called for the US interior department to cancel public-gathering permits through January 24. "This inaugural planning period has to bevery different than all the others," she told -Reuters

Policy update: WhatsApp says message privacy intact, change related to biz interaction:

It added that WhatsApp accesses only the phone numbers from the address book (after getting user's permission) to make messaging fast and reliable, and that it doesn't share contact lists with the other apps Facebook offers.

"We use group membership to deliver messages and to protect our service from spam and abuse. We don't share this data with Facebook for ads purposes. Again, these private chats are end-to-end encrypted so we can't see their content," it noted. A report by internet security researcher Rajshekhar Rajaharia had claimed that at least 1,700 private WhatsApp group links were visible on Google through a web search. WhatsApp noted that users can choose to set their messages to disappear from chats "for additional privacy".

The messaging giant - which has

GOVERNMENT OF TAMILNADU WATER RESOURCES DEPARTMENT PALAR BASIN CIRCLE, CHEPAUK, CHENNAI - 5.

Form of Contract: Lumpsum - Item Rate Contract

Short Term Tender Notice (Two Cover System) Short Term Tender Notice No. 11 / PBC / 2020-2021 / Dt. 12.01.2021

For and on behalf of the Governor of Tamilnadu, the Superintending Engineer, WRD, Palar Basin Circle, Chennai - 5 invites tender from eligible tenderers for the works of (1) "Construction of a Check Dam across the Kiliyar river near Sempoondi (Pasuvangaranai) Village in Maduranthagam Taluk of Chengalpattu District" (2) "Reclaiming and Rejuvenating the Kolavoy Lake in Chengalpattu Taluk and District for augmenting drinking water supply to the extended Chennai Urban and Chengalpattu areas" at his office upto 3.00 P.M. on 02.02.2021 in sealed covers. The tender will be opened at 3.30 P.M at his chamber on the same day.

Other information such as name of work, details of Work, Value, EMD, Cost of tender schedule, etc., will be available in the Government website "www.tenders.tn.gov.in". Any Corrections or Modifications will be published on website only. Superintending Engineer, WRD.,

Palar Basin Circle, Chennai - 5. DIPR/209/Tender/2021

about 400 million users in India - said it will always be clear within the app when users are communicating with any business that uses its features designed for commercial entities.

WhatsApp explained that some large businesses need to use hosting services to manage their communication, and that it provides them the option to use secure hosting services from Facebook to manage WhatsApp chats with their customers, answer questions, and send information like purchase receipts.

"But whether you communicate with a business by phone, email, or WhatsApp, it (business) can see what you're saying and may use that information for its own marketing purposes, which may include advertising on Facebook. To make sure you're informed, we clearly label conversations with businesses that are choosing to use hosting services from Facebook," WhatsApp added. WhatsApp said if users choose to interact with "Shops" (Facebook branded commerce feature), their shopping activity can be used to personalise their Shops experience and the ads users see on Facebook and Instagram.

"Features like this are optional and when you use them we will tell you in the app how your data is being shared with Facebook... If you have WhatsApp installed on your phone, you'll have the option to message that business. Facebook may use the way you interact with these ads to personalise the ads you see on Facebook," it added. Interestingly, a number of business leaders, including Mahindra Group chairman Anand Mahindra, Paytm founder Vijay Shekhar Sharma and PhonePe CEO Sameer Nigam, have spoken of moving to rival platforms. Mahindra said he had installed Signal, while Nigam said he had moved 1,000-plus "PhonePers" to Signal, and recreated all his work groups and moved family groups.

....WhatsApp is by far and away the best product I've ever seen in the social/comm category. I trusted the WA founders. I loved the simplicity of their product. Never imagined switching to another chat app. C'est la vie," Nigam tweeted. Sharma also advocated moving to Signal. "They say, market has power. We are the largest market. Here in India WhatsApp/Facebook are abusing their monopoly & taking away millions of users' privacy for granted. We should move on to @signalapp NOW. It is upto us to become victim or reject such moves," he said in a tweet.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



STOVE KRAFT LIMITED

Our Company was incorporated as Stove Kraft Private Limited on June 28, 1999 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Bangalore, Karnataka ("RoC") as a private limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the extraordinary general meeting held on May 28, 2018 and the name of our Company was changed to Stove Kraft Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the RoC on August 13, 2018. For further details in relation to the change in the name and the registered address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 137 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: 81/1, Medamarana Halli Village, Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagar District, 562 112, Karnataka, India. Tel: +91 80 2801 6222; Fax: +91 80 2801 6209; Contact Person: Shashidhar SK, Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@stovekraft.com; Website: www.stovekraft.com; Corporate Identity Number: U29301KA1999PLC025387

SECOND ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED JANUARY 31, 2020: NOTICE TO INVESTORS (THE "SECOND ADDENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [+] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF STOVE KRAFT LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASHATA PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,450.00 MILLION AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 7,163,721 EQUITY SHARES COMPRISING OF UP TO 640,906 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, RAJENDRA GANDHI, UP TO 250,000 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, SUNITA RAJENDRA GANDHI ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 1,311,205 EQUITY SHARES BY SEQUOIA CAPITAL INDIA GROWTH INVESTMENT HOLDINGS I ("SCI-GIH") AND UP TO 4,961,610 EQUITY SHARES BY SCI GROWTH INVESTMENTS II ("SCI", TOGETHER WITH SCI-GIH, "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS") (THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS"), AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION. THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]%, OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Potential Bidders may note the following:

 The draft red herring prospectus dated January 31, 2020 ("DRHP") currently states that the Offer comprises of a Fresh Issue of Equity Shares aggregating up to ₹1,450. million by our Company and an Offer for Sale of up to 7,163,721 Equity Shares comprising of up to 640,906 Equity Shares by our Promoter, Rajendra Gandhi, up to 250,000 Equity Shares by our Promoter, Sunita Rajendra Gandhi ("Promoter Selling Shareholders"), up to 1,311,205 Equity Shares by Sequoia Capital India Growth Investment Holdings I ("SCI-GIH") and up to 4,961,610 Equity Shares by SCI Growth Investments II ("SCI", together with SCI-GIH, "Investor Selling Shareholders") (the Investor Selling Shareholders together with the Promoter Selling Shareholders, the "Selling Shareholders"). In view of the relaxation permitted by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/66 dated April 21, 2020, and SEBI circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/188 dated September 29, 2020 (the "SEBI Circulars"), the size of the Fresh Issue has been reduced from up to ₹1,450.00 million to up to ₹950.00 million, as permitted under, and in accordance with the SEBI Circulars. Further, the size of the Offer for Sale has been increased from up to 7,163,721 Equity Shares in the aggregate, to up to 8,250,000 Equity Shares in the aggregate, comprising of an Offer for sale of up to 690,700 Equity Shares by our Promoter, Rajendra Gandhi, up to 59,300 Equity Shares by our Promoter, Sunita Rajendra Gandhi, up to 1,492,080 Equity Shares by SCI-GIH and up to 6,007,920 Equity Shares by SCI, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The aforementioned changes are required to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and the addendum to the DRHP, dated November 20, 2020 ("First Addendum") and accordingly, their references in the Draft Red Herring Prospectus, including on the cover page and in the sections titled "Definitions and Abbreviations", "Offer Document Summary", "The Offer", "General Information", "Capital Structure", "Objects of the Offer", "Other Financial Statements", "Capitalisation Statement", "Other Regulatory and Statutory Disclosures" and "Offer Structure" on pages 1, 14, 45, 51, 58, 70, 240, 241, 254

and 266 of the Draft Red Herring Prospectus, respectively, stand amended to the extent stated in the Second Addendum Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get a complete understanding of the updated information, the relevant portions of the sections titled "Definitions" and Abbreviations", "Offer Document Summary", "The Offer", "General Information", "Capital Structure", "Objects of the Offer", "Other Financial Information", "Capitalisation" Statement", "Other Regulatory and Statutory Disclosures" and "Offer Structure" have been included in the Second Addendum.

The above is to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum filed with SEBI. The information in the Second Addendum supplements and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum, as applicable, and the Second Addendum has been prepared as per the requirements set out under the SEBI Circulars which includes material updates to the information in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum, as applicable. Please note that the changes pursuant to the Second Addendum will be appropriately included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. All capitalised terms used in the Second Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum.

BOOK KUNNII	BOOK KURNING LEAD BARMOERS	
€ Edelweiss	JM FINANCIAL	MFINTECH
Edelweiss Financial Services Limited 14th Floor, Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400 098, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4009 4400; Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: skl.ipo@edelweissfin.com Investor grievance e-mail: customerservice.mb@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Contact Person: Disha Doshi/Nilesh Roy SEBI Registration No.: INM0000010650	JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 Email: skl.ipo@jmfl.com Investor grievance e-mail: grievance.ibd@jmfl.com Website: www.jmfl.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	KFin Technologies Private Limited Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Financial District Nanakramguda, Srilingampally Hyderabad, Rengareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: stovekraft.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR0000000221

For and on behalf of Stove Kraft Limited

Company Secretary and Compliance Officer

Adfactors 802

Place: Bengaluru Date: January 12, 2021

STOVE KRAFT LIMITED is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed DRHP, First Addendum and Second Addendum with SEBI. The DRHP, First Addendum and Second Addendum is available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs, i.e., Edelweiss Financial Services Limited and JM Financial Limited at www.edelweissfin.com and www.jmfl.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 18 of the DRHP. Any decision whether to invest in the Equity Shares may only be made after the Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP or the First Addendum or the Second Addendum

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S. There will be no offering of the Equity Shares in the United States.

New Delhi

विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड

CIN: L25111DL1995PLC073719

पंजीकृत कार्यालय: जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

Ph.: 011-40450110, E-mail: cs@vikasmulticorp.com, URL: www.vikasmulticorp.com 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलॉन) का सार

						रु. लाखों मे
विवरण	समाप्त तीन महीने		समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष	
	31.12.2020 (अनंकेक्षित)	30.09.2020 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2020 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2020 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	942.95	3,185.73	4,713.60	4,493.90	12,193.99	15,538.00
विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ	10.27	41.79	156.63	62.61	383.90	353.93
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	10.27	41.79	156.63	62.61	248.59	250.62
कर से बाद शुद्ध लाभ	6.62	31.27	113.43	45.79	181.82	139.72
अवधि के लिये कुल व्यापक आय	(1,418.65)	(441.15)	1,913.48	(1,853.01)	(106.89)	(3,672.60)
इक्विटी शेयर पूँजी (रु.)	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)			3	i i		3
1. मूल :	(0.21)	(0.07)	0.29	(0.28)	(0.02)	(0.55)
2. तरल :	(0.21)	(0.07)	0.29	(0.28)	(0.02)	(0.55)
टिप्पणी: 1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विर्व	नेयमन, 2015 के	विनियमन 33 के	अंतर्गत स्टॉक एव	स्पचैंजों में दाखित	त 31 दिसम्बर, 2	2020 को समाप्त

तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12.01.2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों ने उसकी ऑडिट की है तथा उन्होंने सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी किये हैं।

> निदेशक मंडल के आदेश से विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड के लिये

विवेक गर्गी प्रबन्ध निदेशक

ओद्योगिक उत्पादन नवंबर में 1.9 फीसद घटा

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

विनिर्माण और खनिज क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के चलते नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में एक साल पहले के मुकाबले 1.9 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। दो महीने बाद औद्योगिक उत्पादन नकारात्मक दायरे में पहुंचा है। आधिकारिक आंकड़ों में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में 77.63 फीसद का वजन रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर के दौरान 1.7 फीसद

की गिरावट रही। वहीं, खनन क्षेत्र का उत्पादन भी इस दौरान 7.3 फीसद घटा है। हालांकि, समीक्षागत इस माह के दौरान बिजली उत्पादन सूचकांक में 3.5 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। एक साल पहले नवंबर, 2019 में आइआइपी में 2.1 फीसद वृद्धि दर्ज

पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी फैलने से औद्योगिक उत्पादन में 18.7 फीसद की गिरावट आई थी। उसके बाद से अगस्त, 2020 तक यह लगातार नकारात्मक दायरे में रहा। उसके बाद आर्थिक गतिविधिययां शुरू होने पर कारखाना उत्पादन में सितंबर में 0.48 फीसद की मामुली

की गई थी।

वृद्धि रही। इससे पहले अक्तूबर के बाजार में यह तेजी आई। लिए 3.6 फीसद वृद्धि का शुरुआती आंकड़ा जारी किया गया था।

यह कहा है।

बाजार लगातार तीसरे दिन रेकार्ड ऊंचाई पर

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा)।

शेयर बाजारों में तेजी मंगलवार को भी जारी रही और दोनों सूचकांक लगातार तीसरे दिन रेकार्ड ऊंचाई पर बंद हुए। विदेशी वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद संस्थागत निवेशकों (एफआइआई) के पूंजी अक्तूबर में इसमें 4.9 फीसद की प्रवाह के बीच अनुकूल घरेलू गतिविधियों से

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। लेकिन बाद में सरकार ने 25 मार्च, 2020 को यह गिरावट से उबरते हुए एक समय फीसद महामारी को फैलने से रोकने 49,569.14 अंक के रेकार्ड स्तर तक चला के लिए देशव्यापी पूर्णबंदी लागू की गया। अंत में 247.79 अंक यानी 0.50 फीसद थी। इसके बाद प्रतिबंधों में धीरे-धीरे की बढ़त के साथ 49,517.11 अंक के अब ढील दिए जाने के बाद से आर्थिक तक के सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ। बाजार में गतिविधियों में सुधार दिखने लगा। अच्छी हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इसके साथ ही विभिन्न संकेतकों को इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक में लिवाली लेकर आंकड़ों की रिपोर्टिंग में भी के जोर से यह तेजी आई। इसी प्रकार, नेशनल सुधार आया। सांख्यिकी व कार्यक्रम स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78.70 अंक यानी क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक वक्तय में 0.54 फीसद की बढ़त के साथ 14,563.45 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।

तिथि: 12 जनवरी 2021

स्थानः नई दिल्ली

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का संपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060115610801 गुलवीर सिंह (ऋणी), श्रीमती संगीता रानी (सह-ऋणी व बंधककर्ता)	9 मई 2019 ₹ 1588523/- अक्षरे पन्दह लाख इठयासी हजार पांच सौ तेईस मात्र दिनांक 9 मई 2019 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति बी-15/3, खसरा नं. 212/1, ग्राम गोंधला गुजरन खादर, बी-क्लॉक, गली नं. 5, मिन पुस्ता रोड़, पांचवी पुस्ता, गामरी एक्टेनशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053. क्षेत्रफल 36 वर्ग गज पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं:- पूर्व: गली, पश्चिम: पुस्ता रोड़, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति	7 जनवरी 2021
ऋण खाता सं.: L9001060114859971 रा हील खान (ऋणी), शराफ अहमद (सह-ऋणी व बंधककर्ता)	17 जनवरी 2020 र 1856623/- अक्षरे अठारह लाख छपन हजार छ: साँ तेईस मात्र दिनांक 16 जनवरी 2020 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 8 का आधा हिस्सा, पावी लोनी, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, 201102, उ.प्र. कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज पर स्थित हैं। जिसकी चारो सीमाएं:- पूर्व : एन/ए, पश्चिम : एन/ए, उत्तर : प्लॉट नं. 9, दक्षिण : प्लॉट नं. 7	8 जनवरी 2021
ऋण खाता सं.: LSGUR02715-160413328 (L9001060100979197) कुलदीप कश्यप (ऋणी एवं बंधककर्ता), संदीप कश्यप (सह-ऋणी), श्रीमती आज्ञा रानी (सह-ऋणी) जमानतदार : स्रेन्द्र कुमार, नितिन कश्यप	6 जुलाई 2018 र2287572/- अक्षरे बाईंस लाख सितयासी हजार पांच सौ बहत्तर मात्र दिनांक 6 जुलाई 2018 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्र्क्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति खासरा नं. 140 व 141, एच.नं. IX/3381/ईं प्लॉट नं. 82, गांव सीलामपुर, गली नं8, जैन मौहल्ला, धर्म पुरा, गांधी नगर, दिल्ली-110031. क्षेत्रफल 30 वर्ग गज पर स्थित है।जिसकी चारो सीमाएं:- पूर्व: प्लॉट नं. 83, पश्चिम : 15 फीट चौडी सड़क, उत्तर: 15 फीट चौडी सड़क, दक्षिण: प्लॉट नं. 83-ए	11 जनवरी 2021

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन कों एतद द्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टतयां और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कल भगतान होने तक ''एय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली दिनांकः 12–जनवरी–2021 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



STOVE KRAFT LIMITED

Our Company was incorporated as Stove Kraft Private Limited on June 28, 1999 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Bangalore, Karnataka ("RoC") as a private limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the extraordinary general meeting held on May 28, 2018 and the name of our Company was changed to Stove Kraft Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the RoC on August 13, 2018. For further details in relation to the change in the name and the registered address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 137 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: 81/1, Medamarana Halli Village, Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagar District, 562 112, Karnataka, India. Tel: +91 80 2801 6222; Fax: +91 80 2801 6209; Contact Person: Shashidhar SK, Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@stovekraft.com; Website: www.stovekraft.com; Corporate Identity Number: U29301KA1999PLC025387

SECOND ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED JANUARY 31, 2020: NOTICE TO INVESTORS (THE "SECOND ADDENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [1] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF \$10 EACH ("EQUITY SHARES") OF STOVE KRAFT LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASHATA PRICE OF <[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF <[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO <[•] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,450.00 MILLION AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 7,163,721 EQUITY SHARES COMPRISING OF UP TO 640,906 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, RAJENDRA GANDHI, UP TO 250,000 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, SUNITA RAJENDRA GANDHI ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 1,311,205 EQUITY SHARES BY SEQUOIA CAPITAL INDIA GROWTH INVESTMENT HOLDINGS I ("SCI-GIH") AND UP TO 4,961,610 EQUITY SHARES BY SCI GROWTH INVESTMENTS II ("SCI", TOGETHER WITH SCI-GIH, "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS") (THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS"), AGGREGATING UP TO ₹[+] MILLION. THE OFFER WILL CONSTITUTE [+]%, OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Potential Bidders may note the following: a. The draft red herring prospectus dated January 31, 2020 ("DRHP") currently states that the Offer comprises of a Fresh Issue of Equity Shares aggregating up to ₹1,450 million by our Company and an Offer for Sale of up to 7,163,721 Equity Shares comprising of up to 640,906 Equity Shares by our Promoter, Rajendra Gandhi, up to 250,000 Equity Shares by our Promoter, Sunita Rajendra Gandhi ("Promoter Selling Shareholders"), up to 1,311,205 Equity Shares by Sequoia Capital India Growth Investment Holdings I ("SCI-GIH") and up to 4,961,610 Equity Shares by SCI Growth Investments II ("SCI", together with SCI-GIH, "Investor Selling Shareholders") (the Investor Selling Shareholders together with the Promoter Selling Shareholders, the "Selling Shareholders"). In view of the relaxation permitted by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/66 dated April 21, 2020, and SEBI circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/188 dated September 29, 2020 (the "SEBI Circulars"), the size of the Fresh Issue has been reduced from up to ₹1,450.00 million to up to ₹950.00 million, as permitted under, and in accordance with the SEBI Circulars. Further, the size of the Offer for Sale has been increased from up to 7,163,721 Equity Shares in the aggregate, to up to 8,250,000 Equity Shares in the aggregate, comprising of an Offer for sale of up to 690,700 Equity Shares by our Promoter, Rajendra Gandhi, up to 59,300 Equity Shares by our Promoter, Sunita Rajendra Gandhi, up to 1,492,080 Equity Shares by SCI-GIH and up to 6,007,920 Equity Shares by SCI, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The aforementioned changes are required to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and the addendum to the DRHP, dated November 20, 2020 ("First Addendum") and accordingly, their references in the Draft Red Herring Prospectus, including on the cover page and in the sections titled "Definitions and Abbreviations", "Offer Document Summary", "The Offer", "General Information", "Capital Structure", "Objects of the Offer", "Other Financial Statements", "Capitalisation Statement", "Other Regulatory and Statutory Disclosures" and "Offer Structure" on pages 1, 14, 45, 51, 58, 70, 240, 241, 254

and 266 of the Draft Red Herring Prospectus, respectively, stand amended to the extent stated in the Second Addendum. Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get a complete understanding of the updated information, the relevant portions of the sections titled "Definitions" and Abbreviations", "Offer Document Summary", "The Offer", "General Information", "Capital Structure", "Objects of the Offer", "Other Financial Information", "Capitalisation Statement", "Other Regulatory and Statutory Disclosures" and "Offer Structure" have been included in the Second Addendum.

The above is to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum filed with SEBI. The information in the Second Addendum supplements and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum, as applicable, and the Second Addendum has been prepared as per the requirements set out under the SEBI Circulars which includes material updates to the information in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum, as applicable. Please note that the changes pursuant to the Second Addendum will be appropriately included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges, All capitalised terms used in the Second Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER		
€ Edelweiss States protect	JM FINANCIAL	MFINTECH		
Edelweiss Financial Services Limited 14th Floor, Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400 098, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4009 4400; Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: skl.ipo@edelweissfin.com Investor grievance e-mail: customerservice.mb@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Contact Person: Disha Doshi/Nilesh Roy SEBI Registration No.: INM0000010650	JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 Email: skl.ipo@jmfl.com Investor grievance e-mail: grievance.ibd@jmfl.com Website: www.jmfl.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	KFin Technologies Private Limited Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Financial District Nanakramguda, Srilingampally Hyderabad, Rengareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: stovekraft.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR0000000221		

For and on behalf of Stove Kraft Limited

Place: Bengaluru Date: January 12, 2021

Shashidhar SK Company Secretary and Compliance Officer

STOVE KRAFT LIMITED is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed DRHP, First Addendum and Second Addendum with SEBI. The DRHP. First Addendum and Second Addendum is available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs, i.e., Edelweiss Financial Services Limited and JM Financial Limited at www.edelweissfin.com and www.imfl.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 18 of the DRHP. Any decision whether to invest in the Equity Shares may only be made after the Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP or the First Addendum or the Second Addendum for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S. There will be no offering of the Equity Shares in the United States.

खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 4.59 फीसद पर

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

सब्जियों के सस्ता होने और अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि हल्की होने के बीच से खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर, 2020 में 4.59 फीसद पर आ गफ। महंगाई दर का यह आंकड़ा 15 महीने के न्यूनतम स्तर पर है और भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे में है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 3.41 फीसद रही जो इससे पूर्व माह नवंबर में 9.5 फीसद थी। चालू वित्त वर्ष में यह पहली बार है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति छह फीसद से नीचे है। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति महंगाई दर दो-छह फीसद के बीच रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

बेनामी संपत्ति की सूचना देने के लिए आयकर की ऑनलाइन सुविधा शुरू

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

आयकर विभाग ने एक नई 'ऑनलाइन' सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में सरकार को जानकारी दे सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उसके (एचटीपीः // डब्लूडब्लूडब्लू. पोर्टल इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग. गोव.इन) पर सोमवार को कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी' लिंक को चालु कर दिया गया है। इस सुविधा के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा आधार नंबर रखने वाला या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैन अथवा आधार नहीं भी है, वह शिकायत दायर कर सकता है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रवर्तन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को सचना में उल्लिखित राशि तथा वसली की तिथि तक अनुबंधात्मक दर ब्याज एवं रेस्ट्स, प्रभारों आदि का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सुचना निर्गत की थी।

(1) कर्जदार/जमानती द्वारा राशि का पुनर्भगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 11 जनवरी, 2021 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार भगतान की तिथि तक मांग सुचना के निर्गमन के पश्चात भुगतान, यदि कोई हो, को घटाकर कर्जदार के बकाया निम्नलिखित राशि तथा उस पर यथासहमत अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं रेस्टस. प्रभारों आदि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा।

नोट : कब्जा करने की तिथि तक बकाया देय नीचे उल्लिखित है + भुगतान की तिथि तक अनुबंधात्मक दरों पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स, प्रभार आदि देय हैं।

(3) प्रतिभृत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित

शाखा का पता	कर्जदार∕जमानती का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना व तिथि
एरिंग शाखा गुग निर्माण योजना, य सिंह पुरा, मथुरा	कर्जदार : श्री रमेश चन्द जोशी मैसर्स आर.के. बुक बाइंडिंग हाउस	आवासीय मकान का सम्पूर्ण भाग, आवासीय मकान प्लॉट सं. 109 पर स्थित, मौजा मथुरा बांगड़, तहसील एवं जिला मथुरा, लक्ष्मी नगर कॉलोनी के भीतरी क्षेत्र में स्थित, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 212.74 वर्ग मीटर है। यह सम्पत्ति श्री रमेश चन्द जोशी पुत्र श्री मोती लाल जोशी के स्वामित्व में है। सीमाएं : उत्तर : प्लॉट सं. 112 एवं 113, दक्षिण : प्लॉट सं. 109 (दक्षिणी भाग), पूर्व : लॉट सं. 110, पश्चिम : प्लॉट सं. 108 एवं प्लॉट सं. 109 भाग	31.08.2020 तक रु. 15,72,978.99 तथा अनुबंधात्मक दरों पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स एवं प्रभार आदि।	05.10.2020
एरिंग शाखा ग निर्माण योजना, य सिंह पुरा, मथुरा	कर्जदार : श्री विजय जोशी मैसर्स हर्ष पैकेजिंग/श्री रमेश चन्द जोशी	आवासीय मकान का सम्पूर्ण भाग, आवासीय मकान प्लॉट सं. 109 पर स्थित, मौजा मथुरा बांगड़, तहसील एवं जिला मथुरा, लक्ष्मी नगर कॉलोनी के भीतरी क्षेत्र में स्थित, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 212.74 वर्ग मीटर है। यह सम्पत्ति श्री रमेश चन्द जोशी पुत्र श्री मोती लाल जोशी के स्वामित्व में है। सीमाएं : उत्तर : प्लॉट सं. 112 एवं 113, दक्षिण : प्लॉट सं. 109 (दक्षिणी भाग), पूर्व : लॉट सं. 110, पश्चिम : प्लॉट सं. 108 एवं प्लॉट सं. 109 भाग	31.08.2020 तक रु. 22,60,319.84 तथा अनुबंधात्मक दरों पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स एवं प्रभार आदि।	05.10.2020
एरिंग मथुरा	चौधरी की विधिक उत्तराधिकारी, श्री मंजीत सिंह पुत्र/श्री झम्मन चौधरी के विधिक उत्तराधिकारी, श्री रितिक सिंह-पुत्र/स्व. श्री झम्मन चौधरी के विधिक उत्तराधिकारी	वर्ग मीटर कारपेट एरिया है, सम्पत्ति का स्वामित्व मृतक श्री झम्मन चौधरी के विधिक उत्तराधिकारियों के पास है। सीमाएं : उत्तर : एलआईजी हाउस बी-11/जी2, दक्षिण : 9 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व : खुला एवं कॉमन स्पेस, पश्चिम : फ्लैट एलआईजी हाउस ब्लॉक सं. 10 (एस/एफ)	18.05.2020 तक रु. 5,64,462/- तथा अनुबंधात्मक दरों पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स एवं प्रभार आदि।	16.06.2020

Changing Rules Changing Lives

तिथि : 11.01.2021

देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राष्ट्रीय कार्यालयः डीएचएफएल हाउस, 4था तल, 19 सहार रोड, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले ईस्ट, मुम्बई-400099 क्षेत्रीय कार्यालय : डीएचएफएल क्षेत्रीय कार्यालय : कार्यालय सं. 211 एवं 212, दुसरी मंजिल, 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभृति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ-226010. सम्पर्क व्यक्ति : 1. श्री रजनीश सिंह (मोबाइल नं. : 8595371836) ् 2. नीलामी सेवा प्रदाता ''नेक्सजेन सॉल्युशन्स प्रा.लि.'' (मोबाइल नं. : 7977285407)

ई-नीलामी बिक्री सूचना-अनुगामी बिक्री

ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसुली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णि प्रतिभत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की जैसा है जहां है आधार, जो भी जैसा है आधार तथा जो कछ भी वहां है आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा महरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित

है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं: कर्जदार(रों)/ सह- र्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (आरपी)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	
(एलसी सं00003547, लखनऊ-शाखा) दीप मिश्रा/खुशाली अवस्थी	24-10-2018, रु. 1030571 (रुपये दस लाख तीस हजार पांच सौ इकहत्तर मात्र)	सम्पत्ति : प्लॉट सं. 102, खसरा नं. 184, मोहारी कला खुर्द, मोहनलाल गंज, लखनऊ, लखनऊ–226020 का सम्पूर्ण भाग	रु. 11,10,000/- (रुपये ग्यारह लाख दस हजार मात्र)	रु. 1,11,000/- (रुपये एक लाख ग्यारह हजार मात्र)	रु. 13,45,072/- (रुपये तेरह लाख पैंतालीस हजार बहत्तर मात्र)
(एलसी सं.–00044009, लखनऊ–लालबाग शाखा) प्रियंक/रितू गुप्ता	26-11-2018, रु. 1085325 (रुपये दस लाख पिचासी हजार तीन सौ पच्चीस मात्र)	सम्पत्ति प्लॉट सं. डी-33, खसरा नं. 188 का भाग, हसेमऊ, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 का सम्पूर्ण भाग	रु. 11,50,000/- (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,15,000/– (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)	रु. 11,71,372/-(रुपये ग्यारह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बहत्तर मात्र)
(एलसी सं00041772, लखनऊ - लालबाग- शाखा) संतोष कुमार सिंह श्रीमती ललिता	26-07-2017, रु. 782539 (रुपये सात लाख बयासी हजार पांच सौ उनतालीस मात्र)	सम्पत्ति प्लॉट स. 03, माप लगभग 1365 वर्ग फीट, खसरा नं. 149 का भाग, वार्ड हुसैन गंज, परगना-खैराबाद, तहसील एवं जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भाग		रु. 92,000/- (रुपये बानबे हजार मात्र)	रु. 12,18,007/- (रुपये बारह लाख अठारह हजार सात मात्र)
(एलसी सं.–00000592, गोरखपुर–शाखा) कपिल देव यादव श्रीमाती सुमन लता यादव	12-09-2017, रु. 1369365 (रुपये तेरह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ पैंसठ मात्र)	सम्पत्ति प्लॉट आरजी सं. 16, मौजा रामपुर नया गांव, तप्पा- कस्बा परगना-हवेली, तहसील सदर, गोरखपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273003 का सम्पूर्ण भाग		रु. 1,23,000/- (रुपये एक लाख तेईस हजार मात्र)	रु. 20,51,423/- (रुपये बीस लाख इक्यावन हजार चार सौ तेईस मात्र)
(एलसी सं00044204, लखनऊ-शाखा) कुलदीप कुमार/राम सहारा ई-नीलामी के नियम एवं शर्वे	26-11-2018, रु. 824513 (रुपये आठ लाख चौबीस हजार पांच सौ तेरह मात्र)	सम्पत्ति प्लॉट सं. 168, खसरा नं. 268 का मिंज, ग्राम सेमरापीर खिजौली बाजार, द मोहनलाल गंज, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 का सम्पूर्ण भाग	· · ·	रु. 1,15,000/- (रुपए एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)	रु. 11,71,372/- (रुपये ग्यारह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बहत्तर मात्र)

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर ''ऑनलाइन'' संचालित की जायेगी। यह नीलामी डीएचएफएल के अनुमोदित नीलामी सेवा प्रदाता ''नेक्सजेन सॉल्युशन्स 2. निर्धारित निविदा प्रारूप में निविदा/महरबंद संविदा/प्रस्ताव तथा ईएमडी एवं केवाईसी जमा करने की अन्तिम तिथि 02.02.2021 को 5.00 बजे अप. तक जोनल कार्यालय के उपर्यक्त पते पर है। विधिवत नहीं भरी गई अथवा

अंतिम तिथि के बाद पाप्त निविदा विचारणीय नहीं होगा तथा निरस्त कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी।

3. सम्पत्ति की ई-नीलामी की तिथि 03.02.2021 को वेब पोर्टल (http://Disposalhub.com) पर 11.00 बजे पर्वा. से 2.00 बजे अप. तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित है।

4. निविदा/ मृहरबंद बोली/ प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जायेगी। 5. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 21.01.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक है।

एतद्वारा निविदाकार/ऑनलाइन निविदाकार सहमत होंगे कि एक बार उनके अधिकत प्राधिकारी के समक्ष क्वालिफाइड निविदा औपचारिक रूप से पंजीकत होने पर इस दस्तावेज को जमा करके ई–नीलामी बोली के माध्यम से भाग लेने की अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। नीलामी सेवा प्रदाता से अपने लॉगिन विवरण तथा पासवर्ड प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार/ऑनलाइन संविदाकार की होगी।

पनः सचना में बकाया राशि पर ऋण अनबन्ध के अनुसार प्रयोज्य ब्याज तथा इसकी वसली तक देय एवं बकाया आकरिमक व्यय, लागतें आदि वसल किया जायेगा।

एतदहारा ऋणधारकों/ गारन्टरों को सचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के विवरणों के अनसार उक्त अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छक क्रेता/ खरीददार को ला सकते हैं।

चुंकि उपर्युक्त मामलों में जिसमें पूर्व में बिक्री सुचना निर्गत/प्रकाशित की गयी थी, उसमें भी कर्जदार(रों/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को एतद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि जमा करने के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिवसीय बिक्री सचना दी जाती है (भारतीय राजपत्र अधिसचना दिनांक 03.11.2016 के अनसार) जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और शेष, यदि कोई हो, ब्याज और लागते

सहित वसल किया जाएगा। यदि ऋणधारक बिक्री की तिथि से पर्व देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. को देय राशि का परी तरह से भगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जायेगी। 10. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में वर्णित हैं। निविदा प्रपत्र उक्त राष्ट्रीय/अंचल/शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। 11. ई-नीलामी में अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम निविदाकार/ बोलीदाता को की जायेगी। प्राधिकत अधिकारी को यदि जरूरी हो, इन्टर से विडिंग की अनमित देने का सम्प्रभ अधिकार है। ऊपर वर्णित सम्पत्ति आरक्षित मल्य से कम

12. एतदहारा निविदाकार(रों)/ प्रस्तावक(कों)/ संभावित बोलीदाताओं/ क्रेताओं को सचना दी जाती है कि प्रतिभत परिसम्पित्त की बिक्री अधिभारों तथा सांविधिक प्राधिकरण को देय बकाये, यदि कोई हो, के साथ की गई जाएगी तथा

साथ ही उनसे आग्रह है कि निविदा जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों से संबंधित उपरोक्त तथा अन्य संबंधित विवरणों के विषय में स्वयं जांच-पड़ताल कर स्वयं को संतुष्ट कर लें।

13. डीएचएफएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं है। सम्पत्ति की नीलामी ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर की जायेगी 14. कल बकाया ऋण राशि फोरक्लोजर राशि नहीं है। अन्य सभी प्रभार (यदि कोई हो) ऋण की समाप्ति के समय परिगणित होंगे।

15. डिमांड डाफ्ट केवल ''देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' अथवा ''डीएचएफएल'' के पक्ष में ही वनबाई जायेगी।

16. जो भी लाग हो. यह उत्तरदायित्व नीलामी के केता का होगा की 50 लाख तथा उससे अधिक की मल्य की अचल सम्पत्ति के अंतरण पर रेजीटेन्ट स्वामी की ओर से कल बिक्री मल्य पर 1% की दर से स्रोत पर (डीटीएस) क कटौती करें तथा आय कर अधिनियम की धारा 194 आईए के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण में उसे जमा करें।

अधिक विवरणों के लिये उपरोक्त कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

प्राधिकत अधिकारी कृते देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ह./- अधिकृत प्राधिकारी

इंडियन ओवरसीज बैंव

Adfactors 802

तिथि: 13.01.2021

स्थानः लखनऊ